



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 291]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 25, 2017/श्रावण 3, 1939

No. 291]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2017/SRAVANA 3, 1939

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2017

फा. सं. पी/15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का प्रारूप, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फा.सं. पी/15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई तारीख 2 दिसंबर, 2016, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया था, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ, जनता को 13 जनवरी, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार किया गया है;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 20 और 21 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) दूसरा संशोधन विनियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 में, विनियम 2.2 में, 2.2.1 उपनियम में “फसलों का संदूषण और प्राकृतिक रूप से उद्भूत होने वाले विषाक्त पदार्थों” से संबन्धित, प्राकृतिक रूप से उद्भूत होने वाले विषाक्त पदार्थ से संबन्धित खंड 2 में, उक्त स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में, हाइड्रोसाइनिक अम्ल से संबन्धित क्रम संख्या 2 की सारणी में, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

खाद्य वस्तु	अधिकतम सीमा
(3)	(4)
“साबुदाना, कसावा आटा, टेपिओका आटा, मनीहॉट आटा और उनके उत्पाद	10”.

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./156/17]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे :-

- फा. सं. 1-12/एससीआई. पैनल/(अधिसूचना)/एफ.एस.एस.ए.आई./2012, तारीख 3 दिसम्बर, 2014;
- फा. सं. पी.15025/264/13-पी.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- फा. सं. 1-99/1/एस.पी.(संदूषक)/एफ.एस.एस.ए.आई./2009, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- फा. सं. 1-99/4/एस.पी.(संदूषक)/एफ.एस.एस.ए.आई./2014, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- फा. सं. 1-10(6)/मानक/एस.पी. (मछली और मत्स्य उत्पाद)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2013, तारीख 4 जनवरी, 2016;
- फा. सं. पी.15025/264/13-पी.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 5 जनवरी, 2016;
- फा. सं. पी. 15025/264/13-पी.ए./एफ.एस.एस.आई, तारीख 3 मई, 2016;
- फा. सं. 1-99/एसपी(कन्टैनेन्ट्स)/आरईजी/एफएसएसएआई/2015, तारीख 10 अक्टूबर, 2016 और
- फा. सं. 1-10(2)/मानक/एसपी(मछली और मछली उत्पाद)/एफएसएसएआई -2013, तारीख 18 जनवरी, 2017।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2017

F. No. P/15025/264/13-PA/FSSAI.—Whereas the draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, was published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI dated the 2nd December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections or suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 13th January, 2017;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub- section (2) of section 92 read with section 20 and 21 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, namely:-

Regulations

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Second Amendment Regulations, 2017.
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.2, relating to “Crop contaminants and naturally occurring toxic substances”, in sub-regulation 2.2.1, in clause 2, relating to “Naturally occurring toxic substances”, in the Table against serial number 2 relating to Hydrocyanic acid, in columns (3) and (4) thereof, after existing entries, the following entries shall respectively be inserted, namely:-

Article of food	Maximum limits (ppm)
(3)	(4)
“Sago, Cassava flour, Tapioca flour, Manihot flour and their products	10”.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./156/17]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:

- (i) F. No.1-12/Sci.panel/(Notification)/FSSAI/2012, dated 3rd December, 2014;
- (ii) F. No. P. 15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- (iii) F.No.1-99/1/SP(contaminants)/FSSAI/2009, dated 4th November, 2015;
- (iv) F. No. 1-99/4/SP(Contaminants)/FSSAI/2014, dated 4th November, 2015;
- (v) F. No. 1-10(6)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 4th January, 2016;
- (vi) F. No. P. 15025/264/13-PA/FSSAI, dated 5th January, 2016;
- (vii) F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 3rd May, 2016;
- (viii) F. No.1-99/SP (Contaminants)/REG/FSSAI/2015, dated 10th October, 2016 and
- (ix) F. No.1-10(2)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 18th January, 2017.